

I-193

B.Sc. (Part-I) Examination, 2020 BIOTECHNOLOGY Paper - I (Biochemistry, Maths & Computer)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 50

Minimum Pass Marks : 17

Note : Attempt all the five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Unit - I / इकाई - I

Q. 1. Describe classification and chemical properties of protein in detail. **10**

प्रोटीन के वर्गीकरण एवं रासायनिक गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

(2)

Or / अथवा

Write short notes on :

- (a) General properties of amino acids
- (b) Function of oligosaccharides

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) अमिनो अम्लों का सामान्य गुण
- (ब) ओलिगोसेकेराइड्स का कार्य

Unit - II / इकाई - II

Q. 2. What are enzymes ? Explain the factors affecting the enzyme action in detail. **10**

एंजाइम क्या है ? एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तारपूर्वक समझाइए।

Or / अथवा

Write short notes on :

- (a) Application of Auxin and Gibberellins
- (b) Chemical properties of lipid

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) ऑक्सिन और जिबरेलिन्स की उपयोगिता
- (ब) लिपिड का रासायनिक गुण

(3)

Unit - III / इकाई - III

Q. 3. Write a note on enzyme engineering. **10**

एन्जाइम अभियांत्रिकी पर एक लेख लिखिए।

Or / अथवा

Write short notes on :

- (a) Electron transport chain
- (b) Fat metabolism

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला
- (ब) वसा उपापचय

Unit - IV / इकाई - IV

Q. 4. Define probability. Explain various methods of sampling in detail. **10**

प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। नमूना लेने की विभिन्न विधियों को सविस्तार समझाइए।

Or / अथवा

Write short notes on :

- (a) Importance of median
- (b) Set theory

(4)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) माध्यिका का महत्व
- (ब) समुच्चय सिद्धान्त

Unit - V / इकाई - V

Q. 5. Write a note on application of computer in Biochemistry research. **10**

जैवरसायन अनुसंधान में कम्प्यूटर की उपयोगिता पर एक लेख लिखिए।

Or / अथवा

Write short notes on :

- (a) Computer in automation
- (b) Digital and analogue computer

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) स्वचालन में कम्प्यूटर की भूमिका
- (ब) डिजिटल और एनालॉग कम्प्यूटर